



SILGO RETAIL LIMITED

CIN: L36911RJ2016PLCO49036

SIL/JAI/2021-22

Date: June 12, 2021

The Manager,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400 051,

Symbol: SILGO

Subject: Intimation regarding Newspaper Publication of Audited Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2021.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the provision of Regulation 33 and other applicable provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Board of Directors of Silgo Retail Limited ("COMPANY") at its meeting held on Friday, June 11, 2021 approved and considered the Audited Standalone Financial Results of the company for the Quarter and Year ended March 31, 2021.

Further, pursuant to provisions of Regulation 47 of SEBI, LODR the said audited Standalone Financial Results of the company for the Quarter and Year ended March 31, 2021 has been published by the company in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on June 12, 2021.

Copies of the same are attached herewith for your record.

Yours Faithfully,

For SILGO RETAIL LIMITED


TRIPTI SHARMA
CS & COMPLIANCE OFFICER
M. NO. A52232

Part of force for 30 yrs, can't doubt your own: SC on Param Bir plea

EXPRESS NEWS SERVICE
New Delhi, June 11


SAYING IT WAS "shocking" that former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh, who has "served the state" for over 30 years, didn't "trust the functioning of (his) own state", the Supreme Court on Friday allowed him to withdraw his plea seeking transfer of all inquiries against him to an independent agency outside Maharashtra.

Appearing for Singh before a vacation bench of Justices Hemant Gupta and V Ramasubramanian, senior advocate Mahesh Jethmalani said while the Bombay High Court had ordered a CBI probe into the allegations of extortion levelled by Singh against former state home minister Anil Deshmukh, there was an attempt to subvert the process. He said Singh was facing pressure from the probe officer. Justice Gupta said the inquiry against Singh was different from the inquiry against Deshmukh. "You have been a part of the force for 30-plus years. You cannot have doubt against your own," he said.

Jethmalani said while he did not doubt the police, the probe officer, a DGP-rank officer, had asked Singh to withdraw his letter to the CM alleging extortion by Deshmukh, failing which other criminal cases would be initiated against him.

Expressing disbelief, Justice Gupta told him that if a DGP-rank officer could give in to pressure, then there would be nobody who could withstand pressure. Jethmalani said the criminal complaints against Singh were being filed by notorious people. "These complainants are people who are chargesheeted, but are now falsely implicating me (Singh)," he said. The Bench said it cannot pre-judge and the history of the complainant cannot be the ground to quash the complaint.

The court then asked Jethmalani whether he would like to withdraw the plea and approach the High Court. "Please see my prayer. I can't



Mumbai ex-top cop takes back plea to move case outside Maharashtra

keep facing one FIR after another just because I'm a whistleblower. How many cases will I fight? The gentleman in the case who is facing five trials is now filing a case against me," Jethmalani responded.

"There is a saying, people in glass houses should not throw stones," said the bench. Jethmalani said the court was assuming that he was living in a glass house. "This is a prejudicial statement against me... If Your Lordships say that I am living in a glasshouse, I am being pre-judged," he said.

"If the police officers were totally independent and were not caged parrots, I would have confidence. There are other people like me who are also being victimised. Anybody who talks against the government is being victimised," he said.

The court asked how it could order a blanket stay on the FIRs. Jethmalani said his request was that no FIR should be filed without the court's permission. But the bench said different magistrates were looking into the FIRs.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Folio No 88378 Share Certificate No. 120384 for 52 Equity Share of Rs 10/- (Rupees ten only) each bearing Distinctive No. 28069451-28069502 of Eicher Motors Limited having its registered office at 3rd Floor, Select Citywalk, A-3 district Centre, Saket New Delhi 110017 registered in name of Ganpati Finsec Pvt Ltd have applied to the company for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said shares certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of this notice

SC to order closure of case against Italian marines in India

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, June 11

THE SUPREME COURT Friday said it would pass orders on June 15 on closure of proceedings in India against two Italian marines, accused of killing two fishermen off the Kerala coast in February 2012, and the disbursal of ₹10 crore compensation to the heirs of the victims.

Referring to the international arbitral award and the terms of the agreement among India, Italy and the Kerala government, a vacation bench comprising justices Indira Banerjee and MR Shah said the case against marines Masimilano Latorre and Salvatore Girone - for the offences would be now pursued by Italy there.

As per the scheme on dis-

bursal of compensation, the top court was informed by the Kerala government that ₹4 crore each would be given to the heirs of two deceased fishermen and the rest ₹2 crore would be paid to the owner of the fishing vessel St. Antony on which the two were shot dead.

Keeping the plea of the Centre seeking closure of the case here pending for orders on Tuesday, the bench said it was

of the view that the compensation money be transferred to the Kerala high court for disbursal and ensuring that the amount does not fritter away.

In February 2012, India had accused the two marines on board the MV Enrica Lexie - an Italian flagged oil tanker - of killing two Indian fishermen who were on a fishing vessel in India's Exclusive Economic Zone (EEZ).

HIM TEKNOFORGE LIMITED
(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited)
CIN: L29130HP1971PLC000904
Registered Office : Vill Billanwali, Baddi – 173205, Distt: Solan (H.P)
Telephone No.:+91(1795)654026 Fax No.:+91(1795) 245467
E-mail: gujarat.gears@gmail.com, Website: www.gagl.net

EXTRACT FROM STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31.03.2021
(Rs. in Lacs) Except EPS

S. No	Particulars	Quarter ended on 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended on 31.12.2020 (Unaudited)	Quarter ended on 31.03.2020 (Audited)	Year ended on 31.03.2021 (Audited)	Year ended on 31.03.2020 (Audited)
1.	Total income from operations	8,636.24	7,145.07	5,124.45	24,140.52	22,753.29
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	426.96	419.83	(12.46)	716.41	462.64
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	426.96	419.83	(12.46)	716.41	462.64
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	309.81	384.60	(10.83)	513.90	324.63
5.	Total Comprehensive Income for the period Comprehensive Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	345.46	379.69	48.87	534.79	309.77
6.	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs.2/- per share)	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32
7.	Reserves excluding Revaluation Reserve (as per audited Balance Sheet as at 31st March)	-	-	-	15,251.30	14,732.27
8.	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic:	3.94	4.89	(0.14)	6.53	4.13
	Diluted:	3.94	4.89	(0.14)	6.53	4.13

Notes: (1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 11, 2021 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors. These Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2021 are available on the Bombay Stock Exchange Website-www.bseindia.com and on the Company's Website-www.gagl.net. (2) The company is engaged in a single business segment "Manufacturing of Auto Components". (3) The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS, in pursuance to the provisions of section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. (4) The outbreak of Covid-19 pandemic globally and in India has severely impacted businesses and economies. There have been disruption of business operations due to measures taken by the Government/ Local Authorities to contain the spread of Covid-19. The Company's plants, offices were closed due to Lock-downs imposed by the Government. Post lifting of Lock-downs, the operations have resumed across all the manufacturing locations at low level of capacity, which however have improved gradually. Owing to very dynamic nature of the prevailing circumstances, the duration of business disruption & the related financial impact can not be reasonably estimated on the date of approval of these results. The Management will continue monitoring the material changes due to the said Pandemic and take necessary measures accordingly to address the situation. (5) Corresponding figures of the previous quarter / year have been regrouped and reclassified to make the same comparable with the current period figures, wherever necessary. (6) The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the financial year.

On behalf of Board of Directors Him Teknoforge Limited
(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited).

Sd/-
Rajiv Aggarwal
Jt. Managing Director
(DIN No. 00094198)

PLACE: Baddi
DATED: 11th June, 2021

Notes: (1) The above Audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on June 11, 2021 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors. These Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2021 are available on the Bombay Stock Exchange Website-www.bseindia.com and on the Company's Website-www.gagl.net. (2) The company is engaged in a single business segment "Manufacturing of Auto Components". (3) The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS), in pursuance to the provisions of section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India. (4) The outbreak of Covid-19 pandemic globally and in India has severely impacted businesses and economies. There have been disruption of business operations due to measures taken by the Government/ Local Authorities to contain the spread of Covid-19. The Company's plants, offices were closed due to Lock-downs imposed by the Government. Post lifting of Lock-downs, the operations have resumed across all the manufacturing locations at low level of capacity, which however have improved gradually. Owing to very dynamic nature of the prevailing circumstances, the duration of business disruption & the related financial impact cannot be reasonably estimated on the date of approval of these results. The Management will continue monitoring the material changes due to the said Pandemic and take necessary measures accordingly to address the situation. (5) Corresponding figures of the previous quarter / year have been regrouped and reclassified to make the same comparable with the current period figures, wherever necessary. (6) The figures of last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the financial year.

On behalf of Board of Directors Him Teknoforge Limited
(Formerly known as Gujarat Automotive Gears Limited).

Sd/-
Rajiv Aggarwal
Jt. Managing Director
(DIN No. 00094198)

PLACE: Baddi
DATED: 11th June, 2021

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ Punjab National Bank			Branch: Ahmedpur, Haridwar	
(NOTICE UNDER 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002 READ WITH RULE 3 OF SECURITY INTEREST ENFORCEMENT RULES 2002)				
I being an Authorised Officer of the Secured Creditor Bank has a reason to believe that all of you the under mentioned notices cannot be served ordinarily as attempted earlier except through this substituted service. As such, all of you the under mentioned notices are hereby informed and called upon through this public DEMAND NOTICE under section 13(2) of the SARFAESI Act with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule 2002 make payment of the amounts due against each of you, as mentioned below, within 60 days, the bank will proceed U/s 13 (4) of the said Act for taking possession of the secured property/ies/Assets mentioned against account and thereafter to sell the same to realize its dues with further interest till realization along with costs as contemplated under the said Act. Needless to mentioned here that this notice is addressed to you without prejudice to any other remedy available to bank for recovery of its dues, against you. The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.				
S. No.	Name of the Borrower/Guarantor	Details of Security/Property	Date of Demand Notice	Due Amount
1.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: 1. Sh. Ajit Gupta s/o Ashok Gupta R/o Flat No. 4121, Vardhman Tower, Block-3, JURS Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. 2. Smt. Priya Gupta W/o Ajit Gupta R/o Flat No. 4121, Vardhman Towers, Block-3, JURS Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Flat No. 4121, Block No.-3, 919.37 Sq. ft. (85.44 Sq. Mt.) Carpet And Covered Area, Including Super Area 1167 Sq. Ft. (108.46 Sq. Mt.), Kharsa No. 1087, Bounded in East: Common Passage 6 Ft. West: Open Land, North: Flat No. 4120, South: Flat No. 4122, In Vardhman Towers, Jurs Country, Pargana-Jwalapur, Tehsil And Distt. Haridwar.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 34,68,112.54 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 34,68,112.54 + interest & other Charges & Legal Exp.
2.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: Sh. Sarat Kumar Bishnoi S/o Sh. Laxman Singh, R/o H. No. 210, Vishnu Garden, Kankhal Haridwar- 249404, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Falit Sharma S/o Sh. Ashok Kumar, R/o 534, Kumar Gadhra, Kankhal Haridwar- 249408, Uttarakhand.	A residential house, building no. 80/69, measuring in east: 21 feet, West: 21 feet, North: 43 feet, South: 43 feet, total area measuring 903 sq. feet, i.e., 83.89 sq. meter, having two rooms, one gallery, latrine-bathroom, kitchen, mandir and store, havind total covered area 74.32 sq. meter, situated at mohalla kumhargada, shivpura, kankhal, haridwar, pargana jwalapur, tehsil & distt. haridwar, bounded in east: House of Smt. Savitri Devi, West: Main road, North: Property of other unknown person, and South: Primary School.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 9,76,092.00 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 9,76,092.00 + interest & other Charges & Legal Exp.
3.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: 1. Sh. Gambhir Chand S/o Late Sh. Prabhu Dayal, R/o House No. 206, Rishikul, New Basti, Haridwar- 249407, Uttarakhand. 2. Sh. Munna S/o Sh. Shiv Lal, R/o House No. 206, Rishikul, New Basti, Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Rajeev Kumar S/o Late Sh. Prabhu Dayal, R/o House No. 206, Rishikul, New Basti, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A residential Property Situated At Ground Floor At A Plot No. 127/A, Nagar Palika Khata No. 1691/1318 New Haridwar Colony, Haridwar, Pargana Jwalapur, Tehsil and Distt. Haridwar, Whose Ground Floor Measuring in East: 32 Feet, West: 32 Feet, North: 60 Feet and South: 60 Feet, Total Measuring Area 1920 Sq. Feet (178.44 Sq. Meter) in Which Covered Area On Ground Floor Four Rooms, Four Latrine, Four Bathrooms, One Kitchen And Stairs Total Covered Area 1920 Sq. Feet (178.44 Sq. Mt.). Bounded in East: Way 20 Feet Wide, West: Way 30 Feet Wide, North: House No. 126-A, South: House No. 128-A, Sale Deed Registered At Bahi No. 1, Zild No. 1164 Pages 271 To 74, Documents No. 1057 Dated 02.02.2013 In The Favour of Sh. Munna S/o Sh. Shiv Lal And Sh. Gambhir Chand S/o Late Sh. Prabhu Dayal.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 62,22,009.86 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 62,22,009.86 + interest & other Charges & Legal Exp.
4.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: 1. Sh. Taljeet Singh Nanra S/o Mahendra Singh Nanra, R/o Flat No. 5121, Block -3, Vardhman Tower, JURS Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. 2. Sh. Mahendra Singh Nanra S/o Sh. Guran Charan Singh Nanra R/o Flat No. 5121, Block-3, Vardhman Towers, JURS Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Anil Matta S/o Sh. Bhagwan Dass Matta, R/o Flat No. 5119, Block -3, Vardhman Towers, JURS Country, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Property Part of Plot No. 25 And 26, Area Measuring in East: 28 Feet, West: 28 Feet, North: 50 Feet And South: 50 Feet, Measuring 1400 Sq. Feet. i.e. 130.11 Sq. Meter, Belonging To Kharsa No. 1460 (Outside Municipal Limits) Situated At Shivam Vihar, Village- Salempur Mehdood-2, Pargana Borktee, Tehsil and Distt. Haridwar Which is Bounded And Routed in East: Plot No. 15 And 16, West: 20 Feet, Wide Road, North: Part of Plot No. 25 And South: Part of Plot No. 26, Sale deed registered at bahi No. 1, Zild No. 1954, Page 195 To 210, serial No. 8775 Dated 31.10.2014.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 30,45,430.76 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 30,45,430.76 + interest & other Charges & Legal Exp.
5.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: 1. Sh. Murtaza Hasan S/o Mohmad Hasan, R/o 85, Mohalla Kadach, Ahbabnagar, P.O. Jwalapur, Distt. Haridwar- 249407, Uttarakhand. 2. Smt. Shabnam Fatma W/o Murtaza Hasan, R/o 85, Mohalla Kadach, Ahbabnagar, P.O. Jwalapur, Distt. Haridwar- 249407, Uttarakhand. 3. Sh. Usman Ali Khan S/o Safdar Ali Khan, R/o Mohalla Kadachh, Kotrawan, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Part of The Residential Plot No. 17, Measuring in East: 35 Feet, West: 35 Feet, North: 22 Feet & South: 22 Feet, Having Total Covered Area 770 Sq. Feet i.e. 71.56 Sq. Meter, Bounded in East: 15 Feet Wide Way, West: Part of Plot No. 17 of Munna S/o Abdul Razzaq, North: Plot No. 16 & South: 15 Feet Wide Way, Situated At Mohalla Ahbabnagar, Jwalapur Village Ahmedpur Kadachh Under The Boundries of Nagar Palika Samiti Haridwar Pargana Jwalapur, Tehsil And Distt. Haridwar, Having Kharsa No. 1095 MI. Sale Deed Registered At Bahi No. 1, Zild No. 854, Pages 379 To 394, Sr. No. 7052 on Dated 29.06.2012, in Sub-Registrar Office Haridwar.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 11,94,395.42 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 11,94,395.42 + interest & other Charges & Legal Exp.
6.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: 1. Smt. Manju Sharma W/o Sh. Dheeraj Sharma, R/o H. No. 12, Mohalla Chaklaan Near Raghav Dairy (Ram Leela Ground), Jwalapur Haridwar- 249407, Uttarakhand. 2. Sh. Manish Sharma S/o Sh. Virender Sharma, R/o H. No. 12, Mohalla Chaklaan Near Raghav Dairy (Ram Leela Ground), Jwalapur Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Rohitash Sharma S/o, Ved Prakash Sharma, R/o, 128 K. New Vikas Colony, Jwalapur, Haridwar- 249407.	A Residential House (Double Storied) Plot Measuring in East: 35 Feet, West: 35 Feet, North: 24 Feet, South: 27 Feet, Measuring 870 Sq. Feet Or 80.85 Sq. Meter, Total Covered Area Measuring 1740 Sq. Feet, i.e. 161.71 Sq. Meter, (House Tax Khata No. 753/A), Situated At Mohalla Chaklaan, Jwalapur, Pargana Jwalapur (Within Municipal Limits of Haridwar), Tehsil and Distt. Haridwar, Bounded And Butted As on East: 20 Feet Wide Road, West: House of Sh. Surendra, North: House of Sh. Aslam, South: 12 Feet Wide Road, Sale Deed Registered in Bahi No. 1, Zild No. 1657, Page No. 115-144, Sr. No. 1569 On Dated 28.02.2014 With Sub-Registrar Haridwar.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 37,16,549.00 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 37,16,549.00 + interest & other Charges & Legal Exp.
7.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: Sh. Sachin Kaushik S/o Sh. Shiv Kumar Sharma, R/o 270/245, Mohalla Shivpuri (Acharyan), Shirkhupura, Kankhal, Haridwar- 249408, Uttarakhand. Guarantor: Smt. Sandhya K. Sh. Rajendra Tiwari, R/o Mohalla Pandeywala, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Double Story Residential House Measuring in East: 39 Feet, West: 39 Feet, North: 12 Feet And South: 16 Feet, Having Total Area 546 Sq. Feet i.e. 50.74 Sq. Meter, Consisting of One Hall, Latrine- Bathroom, Stairs At Ground Floor And Two Rooms, Kitchen And Stairs Constructed At First Floor, Covered Area 101.48 Sq. Feet Bounded in East: Gali 12 Feet Wide, West: House of Sh. Baburam Saini, North: A Way And Chowk and South: Baburam Saini, Having Nagar Palika House Tax Account No. 270/245, Situated At Mohalla Shivpuri (Acharyan) Shekhupura Kankhal (Under Nagar Nigam Haridwar), Pargana Jwalapur, Tehsil And Distt. Haridwar. Sale Deed Registered in Bahi No. 1, Zild No. 2690, Pages 335 To 362, is SI No. 5007, On Dated 26.06.2013. At Office of Sub Registrar-I, Haridwar.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 22,60,633.00 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 22,60,633.00 + interest & other Charges & Legal Exp.
8.	Branch: Ahmedpur, Haridwar Borrower: Sh. Yogesh Kumar Sharma S/o Sh. Raj Kumar Sharma, R/o 142/23, Mohalla-Ramchandranagar, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand. Guarantor: Sh. Amesh Kumar Sharma S/o Som Dutt Sharma, R/o 46, Mohalla Mehtan, Jwalapur, Haridwar- 249407, Uttarakhand.	A Residential House South Facing Area Measuring in East: 40 Feet, West: 40 Feet, North: 20 Feet and South: 20 Feet, Having Total Area of 800 Square Feet, Chabutra Area Measuring East: 8 Feet, West: 8 Feet, North: 5 Feet and South: 5 Feet Total Measuring 40 Feet Total Area Measuring 840 Square Feet i.e. 78, Square Meter and Constructed Area One Room, Kitchen and Stairs Covered Area Measuring 250 Square Feet i.e. 23.23 Square Meter, Bounded in East: Property of Sh. Kamal Kumar & Ashok Kumar, West: Common Chabutra and House of Sh. Om Prakash Verma, North: House of Sh. Surendra Kumar Modi And South: Road 14 Feet Wide, Belonging To Nagar Nigam, House Tax Khata No. 13/13 Situated in Mohalla Ram Chadrakant Jwalapur (Within Limits Nagar Nigam Haridwar) Pargana Jwalapur Tehsil and Distt. Haridwar, Uttarakhand. Sale Deed Registered on Dated 23.06.2008 in Bahi No. 1, Zild 693, Pages 149 To 166, Serial No. 4247 Dated 24.06.2008 in The Office of Sub-Registrar Office Haridwar.	SARFAESI Notice issued u/s 13(2) on 24.05.2021 for Rs. 6,74,877.72 + interest & other charges. The Notice was sent to you by Registered post returned undelivered.	Due Amount as on 31.03.2021 Rs. 6,74,877.72 + interest & other Charges & Legal Exp.
Date: 11.06.2021 Place : Dehradun Authorised Officer:				

Date: 11.06.2021 Place : Dehradun Authorised Officer

ONLINE E AUCTION SALE OF ASSET

KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
Registered Office: 27 BKC, C-12, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai, Maharashtra. Pin Code-400 051
Branch Office: Plot No. 1, 7th Floor, Near Dell Campus Sector 125, Noida, UP 201313

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-auction Sale For Sale Of Immovable Assets Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 Under Rule 8(5) Read With Rule 8 (6) Of The Security Interest (enforcement) Rule, 2002.

Essel Finance Business Loan Limited Has Assigned The Debt In Favour Of Kotak Mahindra Bank Limited Vide Assignment Agreement Dated 18.02.2020 And Notice Is Hereby Given To The Public In General And In Particular To The Borrower (s) And Guarantor (s) That The Below Described Immovable Property Mortgaged/charged To The Secured Creditor, The Physical Possession Of Which Has Been Taken By The Authorised Officer Of Kotak Mahindra Bank Ltd. On 16-02-2021 And, Will Be Sold On "as is Where is," "as is What is," And "whatever There Is" On 22-07-2021 Between 12:00 Pm To 01:00 Pm With Unlimited Extension Of 5 Minutes, For Recovery Of Rs. 33,23,713/- (Rupees Thirty Three Lakhs Twenty Three Thousand Seven Hundred Thirteen only) As Of 10-06-2021 Along With Future Applicable Interest Till Realization, Under The Loan Account No. Lnd060616-170000621, Due To The Kotak Mahindra Bank Ltd., Secured Creditor From Mr. Sachin Rana, Mr. Sukhbir Singh Rana & Mrs. Sita Rani. The Reserve Price Will Be Rs. 75,00,000/- (Rupees Seventy Five Lakh Only), The Earnest Money Deposit Will Be Rs. 7,50,000/- (Rupees Seven Lakh Fifty Thousand Only) & Bid Increment - Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand Only) & In Such Multiples And Last Date Of Submission Of End With Kyc Is 21-07-2021 Up To 7:00 P.m. (ist.) & Date Of Inspection: 14-07-2021 Between 11:00 Am To 4:00 P.m (ist)

Property Description: property Measuring 180 Sq Yds. Out Of Kharsa No.65, Situated In The Revenue Estate Of Village Sahababad Daulatpur, Delhi, Which Starts In Lal Dora Of 1908 Which is Bounded As: - East - Property Of Sh.rajinder Singh; West - Rata; North - Property Of Sh.bijender Singh; South - Rasta

The Borrower's Attention Is Invited To The Provisions Of Sub Section 8 Of Section 13, Of The Act, In Respect Of The Time Available, To Redeem The Secured Asset, public In General And Borrowers In Particular Please Take Notice That If In Case Auction Scheduled Herein Fails For Any Reason Whatsoever Then Secured Creditor May Enforce Security Interest By Way Of Sale Through Private Treaty, In Case Of Any Clarification/requirement Regarding Assets Under Sale, Bidder May Contact Mr. Rajender Dahiya (+91 8448264516), Mr. Somesh Sundriyal (+91 9910563402) And Mr. Prashant Gautam (+91 9643615436). For Detailed Terms And Conditions Of The Sale, Please Refer To The Link <https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html> Provided In Kotak Mahindra Bank Website i.e. www.kotak.com And/or On <https://kotakbank.auctiontigeria.net>

Place: DELHI
Date: 10-06-2021

Authorized Officer
Kotak Mahindra Bank Limited

Silgo Retail Limited						
Regd. Office: B-11, Mahalaksmi Nagar, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur -302017 Rajasthan, India.						
Phone : +91-705570555; Website : www.silgo.in; Email : info@silgo.in						
CIN : L36911RJ2016PLC049036						
Extracts of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2021						
(Rupees in lakhs)						
S. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.12.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations	1,48,738.72	51,306.55	79,655.41	3,18,925.73	2,84,058.68
2	Net profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,759.88	4,667.98	7,016.52	29,772.68	26,757.82
3	Net profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,759.88	4,667.98	7,016.52	29,772.68	26,757.82
4	Net profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,767.06	3,086.97	5,035.61	21,964.21	19,693.05
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	8,888.78	3,086.97	5,035.61	22,105.93	19,693.05
6	Equity Share Capital	1,02,700.00	66,660.00	82,160.00	1,02,700.00	66,660.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance sheet of Previous year)	1,57,853.35	1,10,125.17	1,69,504.57	1,57,853.35	1,10,125.17
8	Earning per share (of Rs. 10/-each) (for continuing and discontinued operations) -					
	Basic:	0.85	0.35	0.50	2.32	2.56
	Diluted:	0.85	0.35	0.50	2.32	2.56

Note: a. The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2021 filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full form of the Financial Results for the Quarter and year ended March 31, 2021 is available on the website of Stock Exchange : www.nseindia.com and the Company's website : www.silgo.in.

b. The above result has been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on June 11, 2021.

For and on behalf of the Board
Silgo Retail Limited
Sd/-
Nitin Jain
(Managing Director)
DIN: 00935911

Place: Jaipur
Date: June 11, 2021

ANSAL BUILDWELL LTD.
(AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY)
CIN No. : L45201DL1983PLC017225
Regd. Office : 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001
Ph. : 23353051, 23353052, Fax : 91-11-23310639, 23359550, E-mail : info@ansalbl.com
Website : www.ansalbl.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, the 29th June, 2021 at Conference Room, 11**

